



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 18—अक्टूबर 24, 2008 (आश्विन 26, 1930)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18—OCTOBER 24, 2008 (ASVINA 26, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

सं. आर.एस./1433/स्था. (कार्मिक)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राजेन्द्र स्वरूप शर्मा, उप निदेशक (संपादन और अनुवाद सेवा) 30 सितम्बर, 2008 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./1405/स्था. (कार्मिक)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री प्रेम प्रकाश कौशिक, संयुक्त निदेशक (संपादन और अनुवाद सेवा) 30 सितम्बर, 2008 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./1111/स्था. (कार्मिक)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर

लेने पर, श्री धुवन चन्द शर्मा, संयुक्त निदेशक 30 सितम्बर, 2008 के अपराहन से सेवानिवृत्त हो गए।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2008

सं. आर.एस./3/7(1)/2008/66—(कार्मिक)—श्री सतिन्दर सिंह महु जिन्हें पहले दिनांक 1 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं.आर.एस./3/7(1)/2008/44-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर संपादक के रूप में स्थापना रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 अक्टूबर, 2008 के पूर्वान्हन से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

सं. आर.एस./3/7(1)/2008/65—(कार्मिक)—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद)

के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 1 अक्टूबर, 2008 के पूर्वानुमान से आगामी आदेशों तक सचिवालय में नियुक्ति के अधीन ग्राह्य सहायक भती सहित रु. 15600-39100 के वेतन बैंड तथा 7600 रु. के ग्रेड वेतन (अंतिम) में उपनिदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

1. श्री अशोक कुमार फुल
2. श्रीमती सुचित्रा साय्याल

2. श्रीमती सुचित्रा साय्याल की नियुक्ति ग्रेड में तदर्थ आधार पर है। उपनिदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उक्त ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

3. श्री बृज मोहन आरेंद्र, जिन्हें पहले दिनांक 1 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. आर.एस./377(1)/2008/45-कार्मिक के द्वारा तदर्थ आधार पर उपनिदेशक (संपादन और अनुवाद) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 अक्टूबर, 2008 के पूर्वानुमान से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गए हैं।

सी.बी. राय, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

सं. आर.एस./42/2/2008/67-कार्मिक, राष्ट्रीय अनुवर्द्ध विद्यापीठ, नई दिल्ली: ये कार्य भुक्त होने पर डॉ. (श्रीमती) सुनीता सिंघ, अधिशासी अधिकारी ने 1 अक्टूबर, 2008 के पूर्वानुमान से इस सचिवालय में पुनः कार्य संभाल लिया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2008

सं. ए./12025/3/2008 प्रशासन-I—योजना आयोग के दिनांक 26 नवंबर, 2006 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुरूप ये श्रीमती शकीला टो. शमियु क्षेत्रीय निदेशक (चयन ग्रेड), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र, पुणे की प्रतिनियुक्ति की अवधि को 25-5-2009 से दो वर्ष तक यानि 24-5-2011 तक या पद के अगले पदभार का चयन होने तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ते हैं। सेवा-शर्तें वहीं लागू रहेंगी जो इनकी नियुक्ति के समय जारी दिनांक 13-6-2006 के समसंख्यक आदेश में थीं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

सं. ए./12023/14/1997 प्रशा. III (विका.)—डा. मनीश चन्द्र न्यायिक सदस्य, आयकर अपीलीय अधिकरण का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में चयन हो जाने पर, उन्हें दिनांक 6 अगस्त, 2008 के अपराहन से न्यायिक सदस्य इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद की सेवाओं से कार्यमुक्त किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संस्थापना

संख्या 47/2008 फा.सं.ए-39012/03/2008 प्रशा. II—राष्ट्रपति, श्री जॉन के. जोसफ, अतिरिक्त आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चैन्ने का राजकीय सेवा से तत्कालीन त्यागपत्र दिनांक 17.9.2008 (अपराहन) से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26(2) के अंतर्गत स्वीकार करते हैं।

एस.के. देव, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

सं. ए-22011/1/2008 प्रशा. I—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान आधिकारों श्री संजय गांधी एन. (आइएएस) को दिनांक 15 सितम्बर, 2008 के पूर्वानुमान से और अगले आदेशों तक पे बैंड 3 (15,600-39,100/- रु. एवं 5,400/- रु. ग्रेड पे सहित) में वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में महायुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीराम बोहरा, अवर सचिव

वितीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2008

सं. ए-19011/274/2008-स्थापना—राष्ट्रपति द्वारा, श्री अरुण रामानाथन, भा. प्र. सेवा (वर्मिलन इ. 73) सचिव, वितीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो; वित्त सचिव तथा वितीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

तरसेम चंद, उप सचिव

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

सं. ए-12026/2/2005-डीआरटी—ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.एस. पारकर, 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर 30 सितम्बर, 2008 (अपराहन) से अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ देंगे।

2. बैंकों एवं वितीय संस्थाओं की शांख वरुणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति महेश चन्द जैन को तत्काल प्रभाव से अगला आदेश होने तक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुंबई का भी कार्यभार वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

वी.पी. भारद्वाज, निदेशक

## व्यय विभाग

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

सं. पीएफ 16(494)/सीएस/2008:—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप 6500-200-10500/- के वेतनमान में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा, संवर्ग वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के तदर्थ अधिकारी श्री एच.सी. अरोड़ा, दिनांक 31 अगस्त, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एम.के. साहू, उप निदेशक लागत

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

सं. ए-12026/2/2008-प्रशा. I—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक, श्री महेन्द्र कुमार, 30 सितम्बर, 2008 को अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त होते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर 2008

सं. 12023/7/2007-प्रशा. II—रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय में सहायक रोजगार अधिकारी तथा वर्तमान में कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) व्यय विभाग में सहायक उप निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्त श्री धरम सिंह को रोजगार कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी.जी.ई. एंड टी., 3/10 जामनगर हाऊस, नई दिल्ली के निदेशक को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना देने के निदेश के साथ दिनांक 3.10.2008 (पूर्वाह्न) से उनके मूल कार्यालय प्रत्यावर्तित किया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2008

सं. ए-32011/9/2007-मा.सं. II—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.08.2008 के का.जा.सं. 5/18/2005-सीएस- II में निहित निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रपति श्री नंद लाल को सीएसएसएस में नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव नियुक्त करती हैं।

2. उनके खिलाफ कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक कार्रवाई लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं हैं। इन अधिकारियों को सीएसएसएस में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की ग्रेड में वरिष्ठता का क्रम उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन की संलग्न सूची में दिए गए क्रम के अनुसार होगा जिस पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति की वास्तविक तिथि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री नंद लाल ने वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद का कार्यभार दिनांक 13.08.2008 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है।

एम. सुब्रमण्यन, अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2008

सं. ए-19011/6/2008-मा.सं. II—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 2008 के आदेश सं. 17/8/2008-ई.ओ. (एस.एम. I) के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री अतुल चतुर्वेदी, आई.ए.एस. (यूपी :74) को

दिनांक 28.07.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त करती हैं।

एम. सुब्रमण्यन, अवर सचिव

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2008

सं. ए.-32011/1/2008-मा.सं. II—राष्ट्रपति संयुक्त निदेशक (आदान) के पद की निदेशक (आदान) के पद के रूप में वैयक्तिक तौर पर पुनः नामोद्दिष्ट करते हुए श्री टी.ए. बेसिल, आईसीओएस (91) को उनकी शेष सेवा अवधि के लिए जो अब 06.04.2011 तक होगी अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय-उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय में निदेशक (आदान) के पद पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करती हैं। श्री बेसिल की निदेशक (आदान) के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। वे केन्द्र में अपनी सेवा अवधि की गणना 07.04.2006 से करेंगे।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

सं. ए.-32011/5/2008-मा.सं. II—राष्ट्रपति संयुक्त निदेशक (एफ एण्ड ए) के पद की वैयक्तिक तौर पर पुनः नामोद्दिष्ट करते हुए श्री अवतार सिंह संधु, आईसीएस (94) को उनकी शेष सेवा अवधि के लिए जो अब 16.08.2012 तक होगी अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय-उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय में निदेशक के पद पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करती हैं। श्री अवतार सिंह संधु, की निदेशक के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। वे केन्द्र में अपनी सेवा अवधि की गणना 17.08.2007 से करेंगे।

रघुनाथ राय, अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

सं. ए-32011/1/2008-मा.सं. II—राष्ट्रपति संयुक्त निदेशक (आदान) के पद की वैयक्तिक तौर पर पुनः नामोद्दिष्ट करते हुए श्री उमेश डोंगरे, आईसीएस (89) को उनकी शेष सेवा अवधि के लिए जो अब 31.05.2011 तक होगी अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उर्वरक विभाग के सम्बद्ध कार्यालय-उर्वरक उद्योग समन्वय समिति कार्यालय में निदेशक के पद पर तुरन्त प्रभाव से नियुक्त करती हैं। श्री उमेश डोंगरे की निदेशक के रूप में नियुक्ति उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। वे केन्द्र में अपनी सेवा अवधि की गणना 01.06.2006 से करेंगे।

रघुनाथ राय, अवर सचिव



सं 2(12)/2002-स्था० कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने पर राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक, श्रीमती किरण भाला कुजूर को एतद्वारा 2.09.2008 से तथा अगले आदेशों तक उक्त चयन सूची में सम्मिलित करते हैं। उन्हें एतद्वारा इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उपरोक्त अधिसूचित नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर कोर्ट केस सं० 13245-60/2005 और सीएटी, दिल्ली में लंबित श्री सुरेश सिंह द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर केस सं० 1083/2007 व एमए सं० 1171/2007 के निर्णय की शर्त पर है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कर्मचारियों को दिए गए एनएफएस जैसे वित्तीय लाभ यदि कोई हो, उपरोक्त दोनों कोर्ट केसों के निर्णय पर आधारित होंगे।

जी० वैधीश्वरण, अवर सचिव

सं 2(12)/2002-स्था० कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने पर राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक, श्री एस०पी० यादव को एतद्वारा 2.09.2008 से तथा अगले आदेशों तक उक्त चयन सूची में सम्मिलित करते हैं। उन्हें एतद्वारा इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उपरोक्त अधिसूचित नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर कोर्ट केस सं० 13245-60/2005 और सीएटी, दिल्ली में लंबित श्री सुरेश सिंह द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर केस सं० 1083/2007 व एमए सं० 1171/2007 के निर्णय की शर्त पर है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कर्मचारियों को दिए गए एनएफएस जैसे वित्तीय लाभ यदि कोई हो, उपरोक्त दोनों कोर्ट केसों के निर्णय पर आधारित होंगे।

जी० वैधीश्वरण, अवर सचिव

सं 2(12)/2002-स्था० कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 2003 के लिए इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में शामिल किए जाने पर राष्ट्रपति इस्पात मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग में सहायक, श्री निरल टेंपनो, को एतद्वारा 2.09.2008 से तथा अगले आदेशों तक उक्त चयन सूची में सम्मिलित करते हैं। उन्हें एतद्वारा इसी तारीख से इस्पात मंत्रालय में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. उपरोक्त अधिसूचित नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र और अन्य द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर कोर्ट केस सं० 13245-60/2005 और सीएटी, दिल्ली में लंबित श्री सुरेश सिंह द्वारा भारत संघ के विरुद्ध दायर केस सं० 1083/2007 व एमए सं० 1171/2007 के

निर्णय की शर्त पर है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त कर्मचारियों को दिए गए एनएफएस जैसे वित्तीय लाभ यदि कोई हो, उपरोक्त दोनों कोर्ट के निर्णय पर आधारित होंगे।

जी० वैधीश्वरण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली - 110016, दिनांक 29 सितम्बर, 2008

सं० ए-38018/01/2008-स्थापना सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्री सुब्रत बैनर्जी, वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 30 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एस०के० कालड़ा, अवर सचिव

सं० ए-38018/02/2008-स्थापना सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर श्रीमती श्रीदेवी रविन्द्रन, वैज्ञानिक 'जी', वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग 30 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

एस०के० कालड़ा, अवर सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 11 सितम्बर, 2008

सं० ए-11014/2/2008-भा०के०से०-I भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1968 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त उपबंधों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार श्री राहुल राजपूत, भ.स.से. (अग्रगण्य:2000) की 31 अगस्त, 2003 से भारतीय वन सेवा एजीएम.यू.टी. में पुष्टि करती है। श्री राजपूत 1 सितम्बर, 2000 (एफ०ए०) भारतीय वन सेवा संवर्ग में शामिल हुए।

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

सं० ए-17013/13/2007-भा०के०से०-II राष्ट्रपति भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागालैंड राज्य वन सेवा के अधिकारी श्री कोचामैसी (अनुसूचित जनजाति) (जन्म तिथि 06.05.1956), को वर्ष 2007 की चयन सूची में उनका शामिल होने के आधार पर भारतीय वन सेवा में 20.07.2008 से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का नागालैंड संवर्ग आर्षटित करते हैं।

जोसेफ सुहखम, अवर सचिव

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

सं. ए-17013/23/2001-प्रशस्ति-III केन्द्रीय सरकार भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता का विनियम) नियमावली, 1997 के नियम 3(3) (iii) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आइ. एच. खान, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इल्लोसगढ़ सर्गों की भारतीय वन सेवा में नीचे दिए अनुसार वरिष्ठता/आवृत्ति वर्ष निर्धारित करती है:

अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	आवृत्ति वर्ष
श्री आइ. एच. खान	2001	1996

2. उन्हें भारतीय वन सेवा (वरिष्ठता विनियम) नियमावली, 1997 के अनुसार संबंधित बैंक के सीधे भर्ती के सबसे कमिष्ठ अधिकारी के बाद रखा जाएगा।

एच. बी. लाल, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 29 सितम्बर, 2008

सं. ए-32030/1/2008 सी.एच.एस. I केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप सर्गों के अधिकारी डा. मनोज कुमार चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन. ए.ए. एस. जी) को दिनांक 29.05.2008 को कार्य करते हुए मृत्यु हो गई।

श्रीमती नाया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

सं. ए-38016/8/2008-स्थापन-III स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, में कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी (एच.एस.) श्री रंजना भारिणी को दिनांक 09.08.2008 को मृत्यु हो गई है।

अरविंद कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली-1100 001, दिनांक 16 सितम्बर, 2008

सं. 5-2/2003 प्रशासन-IV राष्ट्रपति, श्री डॉ. मो. यूनूस, सहायक डेयरी इंजीनियर, सरकारी दुग्ध योजना, डेयरी विकास विभाग, पटारगढ़ राज्य, औरंगाबाद को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय दिल्ली दुग्ध योजना में दिनांक 09.07.2008 (पूर्वाह्न) से 10000/- 325-15200- रूप के वेतनमान में अधिकतम तौर पर अथवा अगले आदेश तक, उद्योग में जो पहले हो, के लिए प्रतिलिपि आधार पर उप प्रबंधक (भंडार एवं क्रय) नियुक्त करते हैं।

एम. आर. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 30 सितम्बर 2008

सं. ए-15013/2/2008-प्रशासन-1 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस विभाग में निजी सर्विस के तद पर कार्यरत श्री पी. सी. शर्मा 30 सितम्बर, 2008 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. एल. मोना, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2008

सं. ए-32013/3/2005-स्था-III: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2005-सी एस-II दिनांक 12.08.2008 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री दीनाकर नंदी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के कैंडर में 12000-375-16500 के वेतनमान में 12.08.2008 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32013/3/2005-स्था-III कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2005-सी एस-II दिनांक 12.08.2008 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्रीमती अर्पणा बोस को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग के कैंडर में 12000-375-16500 के वेतनमान में 12.08.2008 (पूर्वाह्न) से नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राज कुमार, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2008

सं. 3-2006-प्रशासन: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 15 सितम्बर, 2008 के आदेश सं. 4/26/2996-इ.ओ.(एम.एम.-1) के अनुपालन में श्रीमती मुजुमदार सौनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र-87) ने 17 सितम्बर, 2008 (अपराह्न) से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में कार्यकारी निदेशक का कार्यभार त्याग दिया है तथा वे केन्द्रीय स्टाफिंग स्कोप के पैरा 18.2 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 'अनिवार्य प्रतीक्षा' पर रहेंगी।

2. वे केन्द्र में अपनी कार्यवधि की शेष अवधि हेतु किसी अन्य मंत्रालय/विभाग में वैकल्पिक तैनाती होने तक अपना वेतन तथा अन्य भत्ते महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से आहरित करेंगी।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

सं. 3-2/2006-प्रशा: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 9 जुलाई, 2008 के आज्ञापन सं. 4-5.2008 डीओ(एम.एम.-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति

श्री मानस रंजन मोहंती, आई०आर०ए०ए० (सी एण्ड सी ई : 92) को 23 सितम्बर, 2008 पूर्वाह्न से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

सं० पीएफ/18/एनआईसी/2008-प्रशासन-1 डा० के० सुभाषणियन, वैज्ञानिक "जी" (उपमहानिदेशक) (कर्मचारी कार्ड सं० 18) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 2008 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्धिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर० एम् नायर, उप निदेशक (प्रशासन-1)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2008

सं० पीएफ-2792/प्रशासन: राष्ट्रपति सहर्ष सीएसएसएस के स्टेनो ग्रेड-सी, श्री बी० के० भाटिया की डाक विभाग में निजी सचिव के पद पर 6500-200-10500/ रुपये के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 01.01.2008 से 30.06.2008 तक एवं 01.07.2008 से 31.12.2008 तक अथवा जब तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकित नियमित निजी सचिव उपलब्ध हो, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और अधिकारी को ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के स्टेनो ग्रेड-ए एवं बी (विलयित) (निजी सचिव) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार नहीं प्रदान करेंगे।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 अगस्त 2008

सं० आई०आर०बी०-1/2007/16/2 श्री धर्मशान्, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (आर बी एस एस) के सहायक (वेतनमान 6500-10500 रुपये) को 17.09.2008 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर आर बी एस एस के अनुभाग अधिकारी (वेतनमान 6500-10500) रुपये के रूप में पदोन्नत किया गया है।

मेथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

सं० ई (ओ) III-2008/आर एन/24 के आर सी एल में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, सुश्री भानुमती सी०, सेलेक्शन ग्रेड/भा०ए०ए०सी० ने 25.08.2008 से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

मेथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं० ई (ओ) III-2008/आर एन/28 आर सी आई एल में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री जगदीप सिंह, सेलेक्शन ग्रेड/भा०ए०ए०सी० ने 27.08.2008 से रेल सेवा से त्याग पत्र दे दिया है।

मेथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं० ई आर बी-1/2008/2/17 राष्ट्रपति जी श्री एम एस खान, भा०ए०ए०सी० की 12.09.2008 के पूर्वाह्न से 24050-26000 रुपये के ग्रेड में अपर सदस्य (बजट), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मेथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

सं० आई०आर०बी०-1/2008/3/7 श्री सतीन्द्र सिंह राठी, उप स्टेशन अधीक्षक, दिल्ली मंडल (ग्रेड 6500-10500 रुपये), जो इस समय 7450-11500 रुपये के वेतनमान में मुख्य नियंत्रक, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड कक्ष में कार्यरत हैं, को 24.09.2008 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक यातायात प्रबंधक/एफ एम (वेतनमान 7500-12000) रुपये के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मेथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

(शुद्धि पत्र)

सं० 2000/स्था०(राज०भ०)1/3/1 रेलवे बोर्ड की दिनांक 8.1.2004 की अधिसूचना सं० 2000/स्था०(राज०भ०)1/3/1 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के आगे से अन्तिम शब्द को हटा दिया जाये।

सर्वश्री/कु०

1. धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा
2. सुजीत कुमार
3. महेन्द्र प्रताप सिंह

ममता कण्डवाल, उप निदेशक, (स्था) (जी आर)  
रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, मड़क़ा परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय,  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

सं= ए-22012/1/2005-ई-11(बी) राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिवालय  
तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12.8.2008  
के का-ज्ञा सं= 5/18/2005-सी एस 11 के तहत केन्द्रीय सचिवालय  
आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की 2005 की ग्यन सूची  
में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप पोत परिवहन, मड़क़ा परिवहन  
और राजमार्ग मंत्रालय ने तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप  
में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव  
श्री आर एल आहूजा को इसी मंत्रालय में दिनांक 11.9.2008 से

12000-375-16500/ स्पा के वेतनमान में नियमित आधार पर केन्द्रीय  
सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर  
नियुक्त करते हैं।

के० एस० राव, अवर सचिव

---

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सं= ए-22012/1/94-प्रशा-1: राष्ट्रपति द्वारा सुश्री किरन धीगरा, भा०प्र०से०  
(एज०एमयू: 75) को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में दिनांक  
12.09.2008 (पूर्वाह्न) से सचिव नियुक्त किया जाता है।

वी० के० शर्मा, (निदेशक प्रशासन)

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 30th September 2008

No.RS/1443/Estt.(P):—On attaining the age of superannuation, Shri Rajender Swaroop Sharma, Deputy Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

C.B. RAI, Joint Director

No.RS/1405/Estt.(P):—On attaining the age of superannuation, Shri Prem Prakash Kaushik, Joint Director (E&T) retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

C.B. RAI, Joint Director

No.RS/1111/Estt.(P):—On attaining the age of superannuation, Shri Bhovan Chand Sharma, Joint Director retired from service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

C.B. RAI, Joint Director

New Delhi, the 1st October, 2008

No.RS/3/7(1)2008/66-Perl.:—Shri Satinder Singh Mattu, who was earlier appointed to officiate as Editor on *ad-hoc* basis vide Notification No.RS/3/7(1)2008/44-Perl. dated 1st August, 2008, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st October, 2008. Until further orders.

C.B. RAI, Joint Director

No.RS/3/7(1)2008/65-Perl.:—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the Pay Band of Rs. 15600—39100+Grade Pay of Rs. 7600 (provisional) plus usual allowances admissible under the rule in that Secretariat with effect from the forenoon of 1st October, 2008, until further orders.

1. Shri Ashok Kumar Phull
2. Smt. Suchitra Sanyal

2. The appointment of Smt. Suchitra Sanyal is on *ad-hoc* basis in the grade. The service rendered on *ad-hoc* basis by her in the grade of Deputy Director (E&T) will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

3. Shri Brij Mohan Arora, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director (E&T) on *ad-hoc* basis vide Notification No.RS/3/7(1)2008/45-Perl. dated 1st August, 2008, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st October, 2008, until further orders.

C.B. RAI, Joint Director

New Delhi, the 3rd October, 2008

No.RS/42/2/2008/67-Perl.:—On being relieved from the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi, Dr. (Smt.) Sunita Singh, Executive Officer has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of 1st October, 2008.

C.B. RAI, Joint Director

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 23rd September, 2008

No. A.12025/3/2002-Adm.I:—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 26th May, 2006, the period of deputation of Mrs. Shakila T. Shamsu, Assistant Regional Director (Selection Grade, IGNOU Regional Centre, Pune as Joint Adviser (Education) in the Planning Commission is extended for a further period of two years w.e.f.23/5/2009 i.e. upto 24/5/2011 or till selection of her successor or till further orders, whichever is earlier. The terms and conditions of her appointment will continue to be regulated as per Order of even number dated 13/6/2006.

S. KESAVA IYER, Under Secretary

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 3rd October, 2008

No.A.12023/14/1997-Adm.III(LA):—Consequent on selection as Additional Judge in the Allahabad High Court for two years, Dr. Satish Chandra, Judicial Member, ITAT has been relieved of his duties from the post of Judicial Member Allahabad Bench, Allahabad with effect from the forenoon of 6th August, 2008.

C.O. RAJAN, Deputy Secretary

## MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 29.09.2008

INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE  
ESTABLISHMENT

No. 47 of 2008 (F.No.A.39012/03/2008-AD.II:—The President is pleased to accept the technical resignation from Government service tendered by Shri John K. Joseph, Additional

Commissioner of Central Excise, Chennai with effect from 17.09.2008 (A.N.) under the rule 26(2) of CCS(Pension) Rules, 1972.

S. K. DEB, Under Secretary

#### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 24th September, 2008

No.A.22011-1/2008-Admn.IA:—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Gandhi N. (IFS), a Junior Time Scale Officer of IES, as Assistant Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band 3 [Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 5,400] with effect from the forenoon of 15th September, 2008 and until further orders.

NILESHAM VOHRA, Under Secretary

#### (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

No.A.19011-274/2008-Estt:—The President is pleased to appoint Shri Arun Ramanathan, IAS (TN-73) Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance as Finance Secretary and Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance until his date of superannuation or further orders, whichever is earlier.

TARSEM CHAND, Deputy Secretary

New Delhi, the 30th September, 2008

No.A-12026/2/2008-DRT:—On attaining the age of 65 years, Justice S.S. Paskar, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, will deposit the charge of Chairperson with effect from 30th September, 2008 (A.N.)

In exercise of powers conferred by Sub-Section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Justice Mahesh Chand Jain, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, to discharge the functions of Chairperson Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, also with immediate effect until further orders.

V.P. BHARDWAJ, Director

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 9th September, 2008,

No.PI.16(194) CAB-2008:—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. H.C. Arora an *ad-hoc* Section Officer of the CSS cadre of Ministry of Finance, Department

of Expenditure in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 stands retired from Government service with effect from the afternoon of the 31st August, 2008.

M. K. SAHOO, Deputy Director (Cost)

New Delhi, the 30th September, 2008.

No.A-12026/2-2008-Ad.II:—On attaining the age of superannuation, Sh. Mahendra Kumar, Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired from Government service with effect from the afternoon of the 30th September, 2008.

MEETALI GHOSH, Under Secretary

New Delhi, the 3rd October, 2008.

No.12023/7/2007-Ad.II:—Shri Dharam Singh, Assistant Employment Officer in Office of the Directorate General of Employment & Training and presently on deputation to the post of Assistant Deputy Director in the Staff Inspection Unit (SIU), Department of Expenditure is repatriated to his parent office w.e.f. 3.10.2008 (F.N.) with the direction to report for duty to Director of Employment Exchanges, Ministry of Labour & Employment, DGE&T, 310, Janmagar House, New Delhi.

MEETALI GHOSH, Under Secretary

#### MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 22nd February, 2008.

No.A-32011/9/2007-1(R-I):—In pursuance of DoPT's instructions contained in O.M. No.5/5/2007-CS.II, dated 20-12-2007, the President is pleased to extend the *ad-hoc* promotion of Shri Nand Lal as Sr. Principal Private Secretary for a further period upto 30-06-2008 or till regular Sr. PPS become available or until further orders whichever is earlier.

2. The continuation of appointment is purely *ad-hoc* in nature and shall not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade or Sr. PPS of CSSS.

M. SUBRAMANIAN, Under Secretary

New Delhi, the 28th July, 2008

No.A-19011/6/2008-1(R-I):—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 17/8/2008-EO(SM.I) dated 22nd July, 2008, The President is pleased to appoint Sri Atul Chauhan, IAS (UP-74) as Secretary, Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 28.07.2008 (F.N.) until further orders.

M. SUBRAMANIAN, Under Secretary

New Delhi, the 8th September, 2008,

No.A-32011/1/2008-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri T.A. Basil, ICoAS(91) to the post of Director (Input) in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee an attached office of Department of Fertilizers with immediate effect by redesignating the post of Joint Director (Input) as a Director (Input) as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would now be upto 06-04-2001 or until further orders, whichever events occurs earlier. The appointment of Shri Basil as Director (Input) will take place w.e.f. the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier. He counts his tenure at the centre w.e.f. 07-04-2006.

RAGHUNATH RAI, Under Secretary

No.A-32011/5/2008-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Aytar Singh Sandhu, ICAS(94) to the post of Director in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee an attached office of Department of Fertilizers with immediate effect by redesignating the post of Joint Director (F&A) as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would be upto 16-08-2012 or until further orders, whichever events takes place earlier. The appointment of Shri Sandhu as Director will take place w.e.f. the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier. He counts his tenure central deputation tenure w.e.f. 17-08-2007.

RAGHUNATH RAI, Under Secretary

New Delhi, the 9th September, 2008,

No.A-32011/1/2008-HR-II.—The President is pleased to appoint Shri Umesh Dongre, ICAS(89) to the post of Director in the Office of Fertilizer Industry Coordination Committee an attached office of Department of Fertilizers with immediate effect by redesignating the post of Joint Director (Input) as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would be upto 31-05-2011 or until further orders, whichever events occurs earlier. The appointment of Shri Dongre, Director will take place w.e.f. the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier. He counts his tenure at the centre w.e.f. 01-06-2006.

RAGHUNATH RAI, Under Secretary

#### MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 8th September, 2008

No. 2(12)/2002-Estt.—On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Selection List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include

Shri B.V. Chawla, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel and working on an *ad hoc* basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(12)/2002-Estt.—On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri Birtius Kujur, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel and working on an *ad hoc* basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(12)/2002-Estt.—On her being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Smt. Anita Chawla, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel and working on an *ad hoc* basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned

official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(12)/2002-Estt.-On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri Raj Kumar, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel and working on an ad hoc basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(12)/2002-Estt.-On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2003, the President is pleased to include Shri Kapoor Singh, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel and working on an ad hoc basis as Section Officer in the same service and cadre, is hereby included in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

The 12th September, 2008

No. 2(10)/2004-Estt.-On her being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2004, the President is pleased to appoint Smt. Kiran Mala Kujur, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of

Steel in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. She is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(10)/2004-Estt.-On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2004, the President is pleased to appoint Shri S.P. Yadav, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

No. 2(10)/2004-Estt.-On his being nominated by the DoPT for inclusion in the Select List (seniority quota) of the Section Officer's grade of the CSS cadre of the Ministry of Steel for the year 2004, the President is pleased to appoint Shri Niraj Topno, Assistant in the CSS cadre of the Ministry of Steel in the above mentioned select list w.e.f. 02-09-2008 and until further orders. He is also hereby appointed as Section Officer in the Ministry of Steel on a regular basis from the same date.

2. The appointment notified above is subject to the outcome of Court case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander and others-vs-Union of India pending in High Court, Delhi and Case No. 1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Singh Vs. UOI pending in CAT Delhi. Further financial benefits if any, like NFS granted to above mentioned official shall also be subjected to the outcome of the above mentioned 2 court cases.

G. VAIDHEESWARAN, Under Secretary

## MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

## (DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 29th September, 2008

No. A-38018/01/2008-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Subrata Banerjee, Scientist 'G', Department of Scientific and Industrial Research shall stand retired from the Government service with effect from the afternoon of 30th September 2008.

S.K. KALRA, Under Secretary

No. A-38018/02/2008-Estt.—On attaining the age of superannuation, Smt. Sreedevi Ravindran, Scientist 'G', Department of Scientific and Industrial Research shall stand retired from the Government service with effect from the afternoon of 30th September 2008.

S.K. KALRA, Under Secretary

## MINISTRY OF ENVIRONMENT &amp; FORESTS

New Delhi, the 11th September, 2008

No. 11014/2/2008-IFS-I.—In exercise of the provisions conferred by rule 4 of the Indian Forest Service (Probation) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm Shri Rahul Rajput, IFS (RR: 2000), born on AGMUT Cadre in the Indian Forest Service with effect from 31st August, 2003. Shri Rajput joined the IFS Cadre on 1st September, 2000(F.N.).

VIVEK SAXENA, Director

New Delhi, the 12th September, 2008

No. 17013/13/2007-IFS. II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rule, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Kocha Meyase (ST) (Date of Birth: 06.05.1956), a State Forest Service officer of Nagaland to the Indian Forest Service w.e.f. 20-7-2008 on the basis of inclusion of his name in the Select List for the year 2007 and to allocate him to Nagaland Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secretary

New Delhi, the 15th September, 2008

No. 17013/23/2001-IFS. II.—In exercise of the power conferred by Rule 3(3)(ii)(a) of Indian Forest Service (Regulation of Seniority) Rules, 1997, the Central Government hereby determine the seniority/Year of Allotment of Shri I.H. Khan, Indian Forest Service Officer, born on Chhattisgarh Cadre in the Indian Forest Service as under:—

Name of the Officer	Select List Year	Year of Allotment
Shri I.H. Khan	2001	1996

2. He will be placed below the junior most director recruit officer of the concerned batch as per IFS (Regulation of Seniority) Rules, 1997.

A.K. LAL, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 29 September, 2008

No. A32020/1/2008-CHS. I.—Dr. Manoranjan Choudhary, Chief Medical Officer (NFSG) an officer of General Duty Medical Officer Sub-Cadre of Central Health Service working under Central Government Health Scheme, Delhi died in harness on 29.05.2008.

MAYA PRAKASH, Under Secretary

## (DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE)

New Delhi 25th September, 2008

No. A38016/8/2008-E. III.—Shri Rakesh Bhatia, Programme Officer (AV) working in the Department of Health & Family Welfare has expired on 09.08.2008.

ARVIND KUMAR, Under Secretary

## MINISTRY OF AGRICULTURE

## (DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY DAIRYING &amp; FISHERIES)

New Delhi, the 16th September, 2008

No. 5-2/2003-Admn. IV.—The President is pleased to appoint Sh. D.B. Magare, Assistant Dairy Engineer, Government Milk Scheme, Dairy Development Department, Maharashtra State, Aurangabad to the post of Deputy Manager (Store & Purchase) in Delhi Milk Scheme, a subordinate office of Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, with effect from 9.7.2008 (forenoon) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- on deputation basis for a period not exceeding 3 years or until further orders, whichever is earlier.

M.R. SHARMA, Under Secretary

New Delhi, the 30th September, 2008

No. A-15012-2-2008-Admn-I.—On attaining the age of superannuation, Shri P.C. Sharma, Private Secretary in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2008.

P.L. MEENA, Under Secretary

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th August, 2008

No. A-32013-3-2005-E-III:—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18-2005-CS-II dated 12.08.2008, the President is pleased to appoint Shri Deepankar Nandi as Sr. Principal Private Secretary in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on regular basis w.e.f. 12.08.2008 (forenoon).

RAJ KUMAR, Under Secretary

No. A-32013-13-2005-E-III:—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18-2005-CS-II dated 12.08.2008, the President is pleased to appoint Smt. Aptana Bose as Sr. Principal Private Secretary in the cadre of Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on regular basis w.e.f. 12.08.2008 (forenoon).

RAJ KUMAR, Under Secretary

## MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 25th September, 2008

No. 3-12006-Admn.—In compliance to Appointment Committee of the Cabinet, DoPT's Order No. 4/26-1996-EO (MM.I) dated 15th September, 2008 Smt. Sujata Samsik, IAS (MH:87) has relinquished the charge of Executive Director, Central Social Welfare Board with effect from 17th September, 2008 (AN) and she will be on 'compulsory wait' in the Ministry of Women and Child Development in accordance with para 18.2 of the Central Staffing Scheme.

2. She will draw her salary and other allowances from Ministry of Women and Child Development till she is given an alternative posting in some other Ministry/Department for the balance period of her central tenure.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secretary

New Delhi, the 29th September, 2008

E.No. 3-2/2006-Admn:—In pursuance of the DoPT's O.M. No. 4-5/2008-EO (SM.I) dated 9th July, 2008, the President is

pleased to appoint Shri Manas Ranjan Mohanty, IRS(C&CE: 92) as Director in the Ministry of Women & Child Development for a period five years with effect from the forenoon of 23rd September, 2008 or till further order, whichever event takes place earlier.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secretary

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)  
NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi, the 30th September, 2008

No. PF/18/NIC/2008 Admn-I:—Dr. K. Subramanian, Scientist "G" (Deputy Director General) (Emp. Code: 0018), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 30th September, 2008 and he stands relieved of his duties from the same day.

R.M. NAIR, Deputy Director (Admn-I)

## (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, 28th August, 2008

No. PF-2792/Admn.—The President is pleased to extend the period of ad-hoc appointment of Shri V.K. Bhatia, Steno Grade 'C' of CSSS as Private Secretary in the Department of Posts in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- for the period from 01.01.2008 to 30.06-2008 & 01-07-2008 to 31-12-2008 or till regular private Secretary nominated by DOP&T become available or until further orders, whichever is earlier.

2. This appointment is purely on ad-hoc basis and will not bestow on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or seniority in the grade of Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of Central Secretariat Stenographers Service.

BHAGWAN DAS, Assistant Director General (Admn.)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 29th September 2008

No. ERB-1/2007-16/2:—Shri Dharam Raj, Assistant (Scale Rs. 6500-10,500/-) of Railway Board Secretariat Service (RBSS) has been promoted as Section Officer of RBSS (Scale Rs. 6500-10500/-) on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 17.09.2008.

MATHEW JOHN, Secretary,  
Railway Board

New Delhi, the 30th September, 2008

No. E(O)II-2008/RN/24:—Consequent upon her permanent absorption in KRCL, Ms. Bhanumati C., Selection

Grade/IRAS, has resigned from Railway service with effect from 25/08/2008.

MATHEW JOHN, Secretary,  
Railway Board

No. E(O)-111/2008/RN/28:—Consequent upon his permanent absorption in RCIL, Shri Jagdeep Singh, SG/IRSSE, has resigned from Railway service with effect from 27.08.2008.

MATHEW JOHN, Secretary, Railway Board

No. ERB-1/2008/2/17:—The President is pleased to appoint Shri M.S. Khan, IRAS, as Additional Member (Budget)/Railway Board, in Grade Rs. 24050-26000/- with effect from the forenoon of 12.09.2008.

MATHEW JOHN, Secretary,  
Railway Board

New Delhi, the 3rd October, 2008

No. ERB-1/2008/3/7:—Shri Satinder Singh Rathi, Dy. Station Supdt., Delhi Divn. (Grade Rs. 6500-10500) currently working in Railway Board as Chief Controller, CRB Cell in scale Rs. 7450-11500/- is appointed as Assistant Traffic Manager/FM (Scale Rs. 7500-12000) in Railway Board on deputation basis with effect from the forenoon of 24.09.2008.

MATHEW JOHN, Secretary,  
Railway Board

New Delhi, the 30th September, 2008

#### CORRIGENDUM

No. 2000/E(GR)1/3/1:—The word provisional indicated against the names of the following officers notified vide Railway Board's notification No. 2000/E(GR)1/3/1 dated 8.1.2004 may be deleted.

S/SHRI

1. Dharmendra Kumar Mishra
2. Sujeet Kumar
3. Mahender Pratap Singh

MAMTA KANDWAL, Dy. Dir. Estt. (Gaz. Rectt.)  
Railway Board.

#### MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPTT. OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 15th September, 2008

No. A.22012/1/2005-E.II(B):—Consequent on inclusion of his name in the Select List of 2005 of Senior Principal Private Secretary of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/18/2005-CS.II dated 12.8.2008, the President is pleased to appoint Shri R.L. Ahuja, Principal Private Secretary of CSSS, presently working as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, as Senior Principal Private Secretary of CSSS on regular basis in the same Ministry in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 with effect from 11.9.2008.

K.S. RAO, Under Secretary

#### MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th September, 2008

No. A-22012/1/94-Admn. I:—The President is pleased to appoint Ms. Kiran Dhingra IAS (AGMU: 75) as Secretary in the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation w.e.f. 12.09.2008 (FN).

V.K. SHARMA, Director (Admn.)

